




83004
Active Cases


64425
Cured/
Discharged


4337
Deaths


1
Migrated

 Resources
 State Data

COVID-19 INDIA
as on : 27 May 2020, 08:00 IST (GMT+5:30)

For any technical enquiry with respect to COVID19, you may kindly email on technicalquery.covid19@gov.in
Aarogya Setu IVRS  1921

Latest Updates

[27.05.2020](#)
Video on Caring and Sharing, the new normal **NEW**

COVID-19 Statewise Status (Click to expand)

Resources

Travel Advisories	24.05.2020 Guidelines for international arrivals
Behavioural Health : Psycho-Social toll free helpline-08046110007	24.05.2020 Guidelines for domestic travel (air/train/inter-state bus travel)
Citizens	20.03.2020 Instructions to all major and minor ports for dealing with(COVID-19)
Hospitals	19.03.2020 Additional Travel Advisory
Training Material	18.03.2020 Standard Operating Procedure for Passenger Movement post Disembarkation
States / Departments / Ministries	17.03.2020 Additional Travel Advisory
Employees	16.03.2020 Additional Travel Advisory
Awareness Material	
Inspirational series on Healthcare Service Personnel	14.03.2020

Awareness

English Hindi



स्वास्थ्य एवं कुटुंब कल्याण विभाग
सर्वोपयोगी सेवाएं



Help us to
help you



नोवल कोरोनावायरस (COVID-19)

COVID-19 परीक्षण की आवश्यकता – कब और कैसे?

सभी व्यक्तियों की जांच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि

सुझाव है कि वे जो अपनी व्यक्तियों में रोग फैला रहे हैं, जिन्होंने COVID-19 से प्रभावित लोगों की सहायता की हो या संक्रमित व्यक्ति को संपर्क में रहे हों

किन लोगों का परीक्षण करना है

उन सभी व्यक्तियों का, जिनमें लक्षण मौजूद हों और

- जिन्होंने पिछले 14 दिनों में कोई अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की हो
- जो किसी संक्रमित व्यक्ति को संपर्क में आये हों
- जो स्वास्थ्यकर्मी हैं
- अस्पतालों में नती सीविकर एक्टिव रेस्पिरेटरी इलनेस (SARI), इन्फ्लुएंजा लक्षण इलनेस (ILI) या सीविकर निवर्तित जैसी बीमारियों को सही तरीका

ऐसे लक्षण-रहित व्यक्ति जो किसी संक्रमित व्यक्ति से प्रत्यक्ष और उच्च जोखिम संपर्क में आये हों, उनका परीक्षण एक बार संपर्क में आने के 14वें दिन और 14वें दिन के बीच में किया जाना चाहिए। प्रत्यक्ष और उच्च जोखिम वाले संपर्क निम्न हैं:

- जो संक्रमित व्यक्ति को सहायता एक ही घर में रह रहे हों
- जो स्वास्थ्य कर्मी/कर्मचारी जिन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO, एच.डी.) द्वारा प्रमाणित पर्याप्त सुरक्षा मापदंडों के बिना किसी संक्रमित व्यक्ति की जांच की हो

जांच के लिए सरकारी एवं निजी प्रयोगशालाओं को बारे में जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है: kcrn.nic.in

अधिक जानकारी के लिए

राज्य हेल्थसेक्टर में या सहायता एवं परामर्श के लिए, सहायता के लिए 24x7 हेल्थसेक्टर सपोर्ट लाइन पर कॉल करें

1075 (टोल फ्री) | 011-23978046

ई-मेल: ncov2019@gov.in, ncov2019@gmail.com





Ministry of Health & Family Welfare
Government of India



Help us to
help you



NOVEL CORONAVIRUS (COVID-19)

Protective measures against Coronavirus



A distance of at least 1 meter is necessary to ensure safety for all



Wash your hands with soap and water regularly



If soap and water is not available, use hand sanitizer with at least 60% alcohol



Wash hands before touching eyes, nose and mouth



Throw used tissues into closed bins immediately after use



Cover your nose and mouth with handkerchief/tissue while sneezing and coughing



Avoid mass gathering and crowded places

If you are experiencing symptoms like fever, cough or difficulty in breathing, please call the state helpline number or 24x7 helpline numbers of Ministry of Health and Family Welfare, Government of India and follow the instructions.

Image: Ministry of Health and Family Welfare

1075 (Toll Free) | 011-23978046

Email for: ncov2019@gov.in, ncov2019@gmail.com



ncov.gov.in



[ncov2019](https://www.facebook.com/ncov2019)



[ncov2019](https://twitter.com/ncov2019)



[ncov2019](https://www.youtube.com/ncov2019)



स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
भारत सरकार



Help us to
help you

नोवल कोरोनावायरस (COVID-19)



कोरोनावायरस से बचाव के उपाय



आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी,
सबकी सुरक्षा के लिए जरूरी



आपने हाथों को साबुन-पानी
साफुन और पानी से धोएं।



साफुन और पानी उपलब्ध न हो सके,
कम से कम 70% अल्कोहल-आधारित
डिजिनिजर का उपयोग करें



आपने आंखों, नाक और मुँह को छूने
से बचने हाथों को धो लें



समस्त सिंगुलर सिंगुलर को
दूरता में सुरक्षित रखें



दोस्तों और लोगों के साथ आंखों नाक
और मुँह को साफुन, सिंगुलर से न करें



सामाजिक सभ्यताओं और
भीड़-भाड़ वाली जगहों से दूर रहें

आपका आवाज बूझना, आंखों या नाक से छेड़ने से बचना जैसे कि संपर्क को साफुन से साफुन करना शुरू करें, जो सुरक्षा वाले डिजिनिजर के साथ या उपलब्ध होने पर भीड़-भाड़ से बचना, आंखों साफुन के 70% डिजिनिजर का उपयोग करना या बर्तन को और सिंगुलर का उपयोग करें

संलग्न: 17/03/2020 10:00:00 AM

1075 (टोल फ्री) | 011-23978046

ई-मेल को: ncov2019@gov.in, ncov2019@gmail.com



moh.gov.in



[ncov2019](https://www.facebook.com/ncov2019)



[ncov2019](https://twitter.com/ncov2019)



[ncov2019](https://www.youtube.com/ncov2019)



TRAVELLERS RETURNING TO INDIA



Inform the airline crew if you have cough, fever or difficulty in breathing



Wash hands from the airline crew if you have cough, fever or difficulty in breathing and wear it at all times



Avoid close contact with family members or fellow travellers



Follow the directions of airline crew while disembarking



At airport, provide your travel itinerary and submit Self-reporting Form to Report Health Officer



If you have returned from fever-affected countries* in the past 14 days and have cough, fever or difficulty in breathing, **call the helpline number immediately** and follow the instructions

* List of countries affected by COVID-19: <https://www.moh.gov.in>

Stay protected!

Stay safe from Novel Coronavirus!

Contact **1075** Ministry of Health and Family Welfare, Government of India

1075 and **+91-11-23978046**
ncov2019@gmail.com



भारत वापस लौटने वाले यात्री



यहाँ आने से पहले, गुजरात या महाराष्ट्र जैसे में स्वास्थ्य विभाग के साथ संपर्क करने से सलाह दी जाती है।



यहाँ आने से पहले, गुजरात या महाराष्ट्र जैसे में स्वास्थ्य विभाग के साथ संपर्क करने से सलाह दी जाती है।



यहाँ आने से पहले, गुजरात या महाराष्ट्र जैसे में स्वास्थ्य विभाग के साथ संपर्क करने से सलाह दी जाती है।



यहाँ आने से पहले, गुजरात या महाराष्ट्र जैसे में स्वास्थ्य विभाग के साथ संपर्क करने से सलाह दी जाती है।



यहाँ आने से पहले, गुजरात या महाराष्ट्र जैसे में स्वास्थ्य विभाग के साथ संपर्क करने से सलाह दी जाती है।



यहाँ आने से पहले, गुजरात या महाराष्ट्र जैसे में स्वास्थ्य विभाग के साथ संपर्क करने से सलाह दी जाती है।

यहाँ आने से पहले, गुजरात या महाराष्ट्र जैसे में स्वास्थ्य विभाग के साथ संपर्क करने से सलाह दी जाती है।

सुरक्षित रहें! नौकल कोरोना वायरस से बचे रहें!

संख्या 1075 या +91-11-23978046 पर 24x7 संपर्क करने से सलाह दी जाती है।
ncov2019@delhi.gov.in



Help us to help you

NOVEL CORONAVIRUS (COVID-19)



Protect yourself and others!

Follow these **Do's** and **Don'ts**

Do's

	Practice frequent hand washing. Wash hands with soap and water or use alcohol based hand rub. Wash hands even if they are notchy clean.		Cover your nose and mouth with tissue/cloth/tissue while sneezing and coughing.		Spit used tissue into closed bins immediately after use.
	See a doctor if you feel unwell (fever, difficulty breathing and cough). While visiting doctor wear a mask/face to cover your mouth and nose.		If you have these symptoms/fever please call State helpline number or Ministry of Health & Family Welfare's 24x7 helpline at 011-23971000.		Avoid participating in large gatherings.

Don'ts

	Avoid a close contact with anyone, if you're experiencing cough and fever.		Touch your eyes, nose and mouth.		Spit in public.
--	--	--	----------------------------------	---	-----------------

Together we can fight Coronavirus

For further information :
 Call at Ministry of Health, Govt. of India's 24x7 control room number
+91-11-2397 8046
 Email at ncov2019@gmail.com



Help us to help you



नोवल कोरोनावायरस (COVID-19)

— खुद रहें सुरक्षित, दूसरों को रहें सुरक्षित —
क्या करें और क्या ना करें

क्या करें



हाथों को धो लें। एक लंबी बार काले साबुन से धो लें, एक सेकंड से अधिक - लगभग दो बार या बहुत ही लंबे सेकंड।



सड़क और बाजार में, सार्वजनिक स्थानों में या सड़क से दूर रहें।



सड़क से दूर रहें। सड़क से दूर रहें। सड़क से दूर रहें।



आप अपनी खुद, अपने और आपके परिवार के लोगों के लिए डॉक्टर से मिलने से डरें। अपने डॉक्टर से मिलने से डरें। अपने डॉक्टर से मिलने से डरें।



आप को डॉक्टर से मिलने से डरें। डॉक्टर से मिलने से डरें। डॉक्टर से मिलने से डरें।




सड़क से दूर रहें। सड़क से दूर रहें। सड़क से दूर रहें।



कोई भी व्यक्ति को सड़क से दूर रहें। सड़क से दूर रहें। सड़क से दूर रहें।



आपको सड़क से दूर रहें। सड़क से दूर रहें। सड़क से दूर रहें।



सड़क से दूर रहें। सड़क से दूर रहें। सड़क से दूर रहें।

क्या ना करें

हम सब साथ मिलकर कोरोनावायरस से लड़ सकते हैं

अधिक जानकारी के लिए

सहायता एवं परामर्श के लिए नेशनल हेल्थ हेल्पलाइन नंबर 1-800-11-2397 8046 पर कॉल करें या ई-मेल करें ncoo2019@gmail.com



FAQs

[Click to see the FAQ pdf](#)

Disclaimer : Website content managed by Ministry of Health and Family Welfare, GOI Design, Developed and Hosted by National Informatics Centre (NIC)